



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2008/अग्राहायण 24, 1930

No. 203]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2008/AGRAHAYANA 24, 1930

भारतीय रिजर्व बैंक**अधिसूचना**

मुम्बई, 26 नवम्बर, 2008

शर्बैवि.पीसीबी. 10/16.26.000/2008-2009.—रिजर्व बैंक को इस बात का समाधान हो जाने पर कि जनहित, जमाकर्ताओं के हित तथा बैंकिंग नीति के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करना आवश्यक है, रिजर्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि 26 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना शर्बैवि.पीसीबी. 6657/16.26.000/05-06 द्वारा टियर I गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंक, तदनुरूपी नए बैंक तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. (नाम परिवर्तित होकर आई डी बी आई बैंक लि.) में ब्याज प्रदायी जमाराशियों के रूप में जमा की गई जमाराशियों की सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित नकद, स्वर्ण या भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियां बनाए रखने के लिए दी गयी छूट जारी रहेगी लेकिन जो भारत में उनकी कुल मांग एवं मियादी देयताओं के 15 प्रतिशत से अधिक न हो और बशर्ते इस प्रकार की छूट 1 अक्टूबर, 2009 से भारत में उनकी कुल मांग एवं मियादी देयताओं के 7.5 प्रतिशत से अधिक न हो। यह छूट 1 अप्रैल, 2010 से वापस ले ली जाएगी।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण :

(क) टियर-I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक का अर्थ है :

- (i) एक शाखा/प्रधान कार्यालय वाले यूनिट बैंक अर्थात् बैंक जिनके पास 100 करोड़ रुपये या उससे कम की जमाराशि हो और जिनकी एक ही जिले में अनेक शाखाएं हों।

- (ii) बैंक जिनके पास 100 करोड़ रुपये या उससे कम की जमाराशि हो और जिनकी एक से अधिक जिलों में शाखाएं हों बशर्ते शाखाएं सहवर्ती जिलों में स्थित हों तथा एक जिले के अंतर्गत शाखाओं की जमाराशियाँ एवं अग्रिम बैंक की क्रमशः कुल जमाराशियाँ एवं अग्रिमों की अलग-अलग कम से कम 95 प्रतिशत हो।

- (iii) बैंक जिनके पास 100 करोड़ रुपये या उससे कम की जमाराशि हो और जिनकी शाखाएं मूलतः एक ही जिले में थीं लेकिन बाद में जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जनपदीय हो गईं।

(ख) इस अधिसूचना के अंतर्गत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की पात्रता के प्रयोजन के लिए जमाराशि आधार का निर्धारण ठीक पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान पखवाड़े की औसत मांग और मियादी देयताओं के आधार पर किया जाएगा।

(ग) “भारतीय स्टेट बैंक” का अर्थ है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक।

(घ) “सहायक बैंक” का वही अर्थ है जो इसे भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में दिया गया है।

(ङ) “तदनुरूपी नया बैंक” का अर्थ है एक तदनुरूपी नया बैंक जिसे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत गठित किया गया हो।

(च) “आईडीबीआई बैंक लि.” का अर्थ है आईडीबीआई बैंक लि. जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत गठित किया गया हो।

वी. एस. दास, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/38/08-असा.]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th November, 2008

UBD. PCB. 10/16.26.000/2008-2009.—Whereas

Reserve Bank is satisfied that in public interest, in the interest of depositors and in the interest of the banking policy, it is necessary so to do, in exercise of powers conferred by Section 24A of Banking Regulation Act, 1949 read with Section 56 *ibid*, Reserve Bank hereby notifies that the exemption granted to Tier-I non-scheduled primary (urban) co-operative banks *vide* Notification UBD. PCB. 6657/16.26.000/05-06 dated December 26, 2005 from maintaining assets in the form of cash, gold or unencumbered approved securities as prescribed in Section 24 of the Act *ibid*, to the extent of the amounts deposited by them with State Bank of India, Subsidiary Bank, Corresponding new bank and Industrial Development Bank of India Limited (name changed to IDBI Bank Ltd.), in interest bearing deposits, but not exceeding 15% of their total demand and time liabilities in India, shall continue provided that with effect from October 1, 2009, such exemption shall not exceed 7.5% of the total demand and time liabilities in India. The exemption shall stand withdrawn effective from April 1, 2010.

Explanation for purpose of this notification :

(a) Tier-I Primary (urban) co-operative bank means:

- (i) Unit banks i.e. banks having a single branch/ Head Office and banks with deposits below Rs. 100 crore, whose branches are located in a single district.

(ii) Banks with deposits below Rs. 100 crore having branches in more than one district, provided the branches are in contiguous districts and deposits and advances of branches in one district separately constitute at least 95% of the total deposits and advances respectively of the bank.

(iii) Banks with deposits below Rs. 100 crore, whose branches were originally in a single district but subsequently, became multi-district due to reorganization of the district.

(b) For the purpose of eligibility of primary (urban) co-operative banks under this notification the deposit base will be determined on the basis of fortnightly average of the demand and time liabilities in the immediate preceding financial year.

(c) “State Bank of India” means the State Bank of India constituted under Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955).

(d) “Subsidiary Bank” has the same meaning assigned to it in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959).

(e) “Corresponding new bank” means a corresponding new bank constituted under Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), or under Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).

(f) “IDBI Bank Ltd.” means IDBI Bank Ltd. constituted under the Industrial Development Bank (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2003.

V. S. DAS, Executive Director

[ADVT III/4/38/08-Exty.]